



# भारत के दक्षिण-पश्चिम तट के पादपप्लवकों की जैवसूची

मोली वर्गीस, के.के.जोशी, राणी मेरी जोर्ज और वी.जे.तोमस  
केंद्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोची, केरल  
लेखक से संपर्क: mollykhandathil@hotmail.com

## प्रस्तावना

पादपप्लवक याने कि फाइटोप्लास्टर्स जलीय पर्यावरण के आहार के घटक हैं और ये खाद्य शृंखला की प्रमुख कड़ी भी हैं। भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर समृद्ध रूप से प्राथमिक उत्पादन होता है और मात्स्यकी संपदाओं के वाणिज्यिक उत्पादन में इनका उल्लेखनीय योगदान है। पादपप्लवकों के मुख्य घटक डयटम, डाइनोफ्लाजेल्लेट, हरित सूक्ष्म शैवाल, नील-हरित शैवाल, सिलिकोफ्लाजेल्लेट, कोक्कोलिथोफोर और सब से सूक्ष्म नानोप्लास्टर हैं। पादपप्लवकों पर अब तक किए गए अधिकाधिक अध्ययन किसी विशेष स्थान और उसी स्थान के जीवों के कुटुम्ब या वंश पर केंद्रित करके किए गए थे और अब पादपप्लवकों के इस उच्च उत्पादनशील क्षेत्र के पादपप्लवकों पर अद्यतन आविष्कार का अभाव है। अतः इस लेख में दक्षिण-पश्चिम

क्षेत्र के पादपप्लवकों पर अन्वेषणात्मक अध्ययन किए जाने का प्रयास है।


## सामग्रियाँ और तरीके

भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग के पादपप्लवकों का जैव अन्वेषण इस क्षेत्र से संबंधित प्रकाशित सूचनाओं का संकलन करके तैयार किया गया है। इस के लिए इस क्षेत्र में उपलब्ध पादपप्लवकों पर किए गए गुणात्मक रचनाओं की समीक्षा की, प्रमुख प्रकाशन संग्रहित किए गए, पादपप्लवक जातियों की सूची तैयार की गयी और वैध जातियों के नामों को समाविष्ट किया गया। हर एक जाति की फार्मिलिवार, अर्डरवार, क्लासवार, फाइलमवार और किंगडमवार सूची तैयार करने में ध्यान रखा गया। उचित प्रकार के प्रस्तुतीकरण और व्याख्या करने के लिए संग्रहित आंकड़ों का माइक्रोसोफ्ट एक्सेल के उपयोग से विश्लेषण किया गया।

## परिणाम और चर्चा

इस क्षेत्र से 13 वर्गों (क्लास) के अंदर 174 वंश, 105 कुटुम्ब और 65 ओर्डर में कुल 493 जातियाँ रिकार्ड की गयीं। इनमें 326 जातियाँ बासिल्लारियोफाइसिए वर्ग या डायटम थीं और इस के बाद 128 जाति डाइनोफाइसिए की थीं और बाकि सयनोफाइसिए, क्लोरोफाइसिए, डिविट्योकोफाइसिए,

कोक्कोलिथोफाइसिए, अल्वोफाइसिए, राफिडोफाइसिए, यूग्लेनोफाइसिए, क्लोरोडेन्ड्रोफाइसिए, कारोफाइसिए और पेडिनोफाइसिए वर्ग के थे और कम मात्रा में दिखाए पड़े। इन जातियों का वर्गवार वितरण चित्र 1 में दर्शाया जाता है। चित्र में जातियों का योगदान 1% से कम होने वाले वर्गों को नहीं जोड़ा है।




चित्र 1. पादपल्लवक जातियों का वर्गवार वितरण

चित्र से यह व्यक्त होता है कि पादपल्लवकों की कुल संख्या का 66% इस क्षेत्र के बासिल्लारियोफाइसिए या डायटमों का योगदान है। इस क्षेत्र के पादपल्लवकों की कुल संख्या का 26% का योगदान डाइनोफलपइसिए (डाइनोफ्लाजेल्लेट) जातियों का है। डायटमों और डाइनोफ्लाजेल्लेटों द्वारा कुल पादपल्लवक जातियों के 92% का योगदान किए जाने की वजह से इस क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों से होने वाली उर्वरता का प्रमुख कारण इन दोनों वर्गों की जातियाँ हैं। कुल जातियों, वंश, कुटुम्ब और क्रम के वितरण का विवरण चित्र 2

में दिया जाता है।

सबसे प्रमुख वर्ग बासिल्लारियोफाइसिए में 326 जातियाँ, 103 वंश, 56 कुटुम्ब और 35 क्रम होते हैं। अगले प्रमुख वर्ग डाइनोफाइसिए में 10 क्रमों में 128 जातियाँ, 38 वंश और 24 कुटुम्ब मौजूद हैं। इन दोनों प्रमुख वर्गों के बाद यह क्षेत्र सयनोफाइसिए (15 जातियाँ) और क्लोरोफाइसिए (7 जातियाँ) वर्गों की जातियों से समृद्ध है। बासिल्लारियोफाइसिए वर्ग के अंदर 51 जातियों की सबसे अधिक विविधता होने वाला कुटुम्ब है कीटोसेरोटेसिए (क्रम: कीटोसेरोटेल्स) इस के बाद



चित्र 2. प्रमुख वर्गों के अंदर जातियों, वंश, कुटुम्ब और क्रम का वितरण

22 जातियों के साथ कोसिनोडिसासिए कुटुम्ब (क्रम: कोसिनोडिसेल्स) आती है। डाइनोफाइसिए वर्ग के अंदर सेराटिएसिए कुटुम्ब (क्रम: गोनियालसेल्स) की अधिकतम 33 जातियाँ और इस के बाद प्रोटोपेरिडिनिएसिए कुटुम्ब (क्रम: पेरिडिनिएल्स) की 22 जातियाँ मौजूद थीं।

भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग के तटीय समुद्र में पादपल्वकों की फुल्लिकाओं की उपस्थिति एक साधारण घटना है। ग्रीष्म मानसून की अवधि के दौरान नदी बहाव और तटीय उत्त्वरण से इस भाग में पौधिक घटकों का मिलाव शैवाल फुल्लिकाओं का मुख्य कारण माना जाता है। डाइनोफाइसिए की कुछ जातियाँ जीव जातों के लिए अधिक हानिकारक होती हैं और दक्षिण-पश्चिम तट पर मछलियों की भारी मर्त्यता का कारण बन जाता है।

भारत के समुद्रों में हानिकारण फुल्लिकाओं की उपस्थिति बड़ी मात्रा में दिखायी पड़ती है जिस की वजह से मात्रियकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए तटीय समुद्र में विषेश शैवाल फुल्लिकाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तटीय समुद्र में पादपल्वकों के उत्पादन और फुल्लन से खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक स्तर पर अन्नज, प्रोटीन, वसा आदि जोड़े जाते हैं और उस क्षेत्र के सभी जीवों के खाद्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। अतः जैवविविधता प्रबंधन और परिरक्षण के लिए भारत के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के सर्वाधिक उत्पादनशील पादपल्वकों के जैवअन्वेषणात्मक अध्ययन करना समय की आवश्यकता है।

